



पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ भारत
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur Chhattisgarh, India
Estd-1964 – recognized by UGC U/s 2(f) and 12 (B)
NAAC “A” Grade

CRITERION-V

EVIDENCE(S), AS PER SOP

METRIC No. 5.1.3	Following Capacity development and skills enhancement initiatives are taken by the institution <ol style="list-style-type: none">1. Soft skills2. Language and communication skills3. Life skills (Yoga, physical fitness, health, and hygiene)4. Awareness of trends in technology
<ul style="list-style-type: none">• Copy of circular /brochure /report/certificate of the event with photographs with date and caption for each scheme or event.• List of programs conducted and the number of students enrolled for each of the events.	

5.1.3

CWS

2016-17

~~17-18~~

**Workshop on "EFFECTIVENESS OF BREAST AND CERVICAL CANCER
AWARENESS PROGRAM IN CHANGING THE KNOWLEDGE ATTITUDE AND
PRACTICES WOMEN IN RAIPUR" in collaboration with AIIMS Raipur was
organized on 28th January 2017**

महिला अध्ययन केन्द्र, पं.रवि किंकर भुक्ल वि. विद्यालय, रायपुर द्वारा दिनांक 28.01.2017 को समय दोपहर 1.00 से 4.00 बजे तक विषय "Effectiveness of Breast and Cervical Cancer Awareness Program in changing the knowledge attitude and practices womens in Raipur" पर एक दिवसीय कार्य शाला का आयोजन किया गया। डॉ. रीता वेणुगोपाल, संचालक महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा कार्य शाला में आमंत्रित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के विशेषज्ञों Dr. Anjali Pal (Department Community & Family Medicine), Dr. Sunita Singh (Department of General Surgery) and Dr. Pushpawati (Department of Obstetrics & Gynaecology) and Dr. Neeraj Shrivastawa (Senior Resident Department of surgery) का स्वागत करते हुए कार्य शाला प्रारंभ किया गया। उपरोक्त विशेषज्ञों द्वारा स्तन कैंसर एवं बच्चेदानी के कैंसर के लक्षण एवं उनकी रोकथाम हेतु महिलाएं क्या उपाय कर सकती है उसे सम्बन्धित जानकारी दी गई। भारत में लगभग 76 प्रति शत लोगों की मृत्यु कैंसर रोग के कारण होती है 30-35 आयु वर्ग के लोगों में कैंसर बीमारी सर्वाधिक देखने को मिलती है अधिकतर मरीज अंतिम अवस्था में आते हैं। जिसकी वजह से इलाज करना संभव नहीं हो पाता है। आज भी हमारे देश में कैंसर से सम्बन्धित जानकारी एवं जांच का अभाव है इसलिए हमारे देश में कैंसर से सम्बन्धित बीमारियों के प्रति जागरूकता लाना विशेष रूप से युवावस्था में करना अति आवश्यक है वर्ष 2008 से धीरे-धीरे कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज भारत में नए कैंसर पीड़ितों की संख्या करीब 1.45 मिलियन हो जाएगी। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री डाटा के अनुसार सिर्फ 12.5 प्रति शत लोग ही कैंसर को जल्दी पहचान कर इलाज शुरू करवा पाते हैं वर्ष 2016 में अब तक कैंसर से मरने वाले मरीजों की कुल संख्या 7,36,000 हो चुकी है। कैंसर जैसे आज माना लाइलाज बीमारी हो लेकिन ऐसा नहीं है कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कैंसर को माल देने में सफल हो जाते हैं लेकिन ऐसे कुछ ही लोग होते हैं कैंसर की बीमारी का पता हमें अक्सर उसके काफी फैल जाने के बाद होता है जब वह अपने लास्ट स्टेज में होता है। अगर सही समय पर कैंसर के बारे में जानकारी हो जाए तो इसका इलाज संभव है। आज कैंसर से मरने वाली महिलाओं सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी का कैंसर सर्वाधिक देखने को मिलता है चिन्ता की बात है कि 26 प्रति शत मामले भारत के होते हैं। वही ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित महिलाओं में 17 प्रति शत महिलाएं भारतीय हैं वैक्सीनेशन से बचाव सम्भव है। उन्होंने बताया कि अविवाहित युवतियों से 12 से 25 एचपीवी टीकाकरण के द्वारा रोक जा सकता है।

एचपीवी टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। आज भारत में सर्वाइकल कैंसर से हर रोज 200 महिलाएं मर रही हैं यानि कि एक घंटे में 8 महिला और हर सात मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से दम तोड़ रही हैं। पता न लग पाने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हर दो महिलाओं में से भारत में एक महिला की मौत हो जाती है। डॉ. सुनीता सिंग का कहना है कि यदि ब्रेस्ट कैंसर का सही समय पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है इसके लिए सबसे आसान तरीका है सैल्फ एग्जामिनेशन करना। इसके अलावा 20 से 40 वर्ष तक उम्र में तीन साल एक बार डॉक्टर से परीक्षण कराएं। 30 से 35 उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की सम्भावना भी बढ़ जाती है। मासिक धर्म के 7-8 दिन बाद ब्रेस्ट व बगल को दबाकर अच्छी तरह देखें यदि ब्रेस्ट या बगल में कोई गांठ या किसी तरह का परिवर्तन नजर आए तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। वह महिलाएं लापरवाही न बरतें जिनके परिवार में किसी को यह समस्या पहले रही। क्योंकि जेनेटिक मामलों में 20.25 प्रतिशत खतरा बढ़ जाता है। समय-समय पर इसका वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। डॉ. सुनीता सिंग द्वारा ब्रेस्ट कैंसर से सम्बंधित कुछ वीडियो दिखाया इसके साथ उन्होंने कुछ भारीरिक व्यायाम के बारे बताया जिससे इन रोगों से बच जा सकता है। कैंसर के बारे में लोगो में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कैंसर जो कि ग्रसित व्यक्ति को छुने से होता है, ये वंशगत होता है, बुढ़ापे में होता है अन्य इस प्रकार की भ्रांतियां मिथ्याओं को दूर किया। कार्यक्रम के प्रचारार्थ अनेकों प्रचारक सहभागियों के द्वारा किया गया जिसका उत्तर विदेशों की टीम के द्वारा दिया गया।




2016

**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 13/03/2017

Notice

All the students of MBA 2nd Semester are required to attend the work shop on Emotional Intelligence and spiritual intelligence conducted by Dr. H M Jha, Bidhaythi, SSGIEM, Shegaon on 16th and 17th March 2017 in the seminar Hall of Institute of Management at 10: 30 AM. Attendance of all the students is compulsory. Normal classes will resume after the session.


DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)

5.1.3

Management

5.2

**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 7/03/2017

Notice

All the students of MBA 4th Semester are required to attend the work shop on Resume Preparation conducted by Dr. B N Rao, Director Ramanujan Accademy on 9th and 10th March 2017 in the seminar Hall of Institute of Management at 10: 30 AM. Attendance of all the students is compulsory. Normal classes will resume after the session.



DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)

**Lecture on "SOCIAL NORMS & YOUTH : GENDER PERSPECTIVE"
in collaboration with Oxfam India on 21st August 2017**

Introduction:

Oxfam India, Chhattisgarh office has been closely working with Centre for Women's Studies, Pt. RavishankarShukla University since past 3 years. As part of this collaboration several engagement with youth on issues of gender equality has been organized in the university. Considering the potential of youth as agents of change this engagements is very crucial. This time the orientation has been planned with the students of Centre for Women's Studies and School of Studies Physical Education, Pt. RavishankarShukla University.

The prime objective of the programme was:-

1. Orientation of youth on basic concepts of gender through activity based learning.

Participants

Total 150 boys and girls from the Centre for Women's Studies and Department of Physical Education, Pt. Ravishankar Shukla University took part in the programme.

Methodology

Lecture cum interactive, activity based learning method with emphasis on a participatory approach to learning was applied in the orientation sessions.

Location and duration of the trainings

The orientation took place in the Centre for Women's Studies and Department of Physical Education, Pt. RavishankarShukla University, Raipur. It was day long exercise.

Inauguration session

The inaugural session of the programme was attended by Dr. R.K. Mishra, Director Physical Education Programme, Pt. Ravishankar Shukla University (Pt.RSU). Dr. Rajiv Choudhary HoD of Physical Education, Pt.RSU, Dr. C.D. Agashe, Professor Physical Education, Pt.RSU, Prof Reeta Venugopal, Director Center for Women Studies Pt.RSU and Urmimala Sengupta, Programme Officer – Gender Justice, Oxfam India, Aniksha Varoda, Research Assistant Center for Women Studies Pt.RSU.

Welcoming the dignitaries and participants Prof. Reeta Venugopal , Director, Centre for Women's Studies, stated that gender equality is essential part of a balanced life. Understanding of gender equality helps us combat many misunderstanding in our lives. Dr. R.K. Mishra mentioned that gender equality should be practiced in day to day lives. From sports to kitchen the role of male and female should be based on principal of gender equality. Appreciating the initiative of Prof. ReetaVenugopal, Dr. C.D. Agashe stated that more such interaction sessions on gender equality should be organized, he urged the students to clarify their doubts and practice gender equality in their lives. Dr. Rajiv Choudhary mentioned that men and women are all equality and it is time that this equality is celebrated by one and all, he urged the students to give full attention to the sessions on gender equality.

Urmimala, PO Gender Justice, Oxfam India, thanked the faculty members and Prof, Venugopal for organizing the event on gender equality. She appreciated the students for joining the session and their association with gender justice activities in the past as well. She mentioned that the objective of the session was to orient all the participants with basics of gender equality.



Technical Sessions

The inauguration session was followed by introduction of the participants. Each participant was asked to introduce his/her name by simply adding an adjective after their name For example: "I am Sanjay smart." etc. of the interesting introductions were --

I am Meena talented

I am Alok excited

I am P. Nirmalahappy

Post introduction participants were asked to differentiate between gender and sex. The purpose of this session was to enable the participants to reflect on their understandings of sex and gender and to increase their comfort level with these issues. The differences mentioned by the participants are summarized below

SEX	GENDER
This biological or physical construction is called sex.	These socio-cultural differences between men and women are called gender.
Sex is universal	Differs from culture to culture
Static	Changeable

After this the participants were asked to read aloud following statements –

1. Women give birth to babies, men don't.
2. Care of babies is the responsibility of women because they can breastfeed them.
3. Men have moustaches.
4. Women cannot carry heavy loads.
5. Women are scared of working outside their homes at night
6. Men's voices break at puberty, women's don't.
7. Women are emotional and men are rational.
8. Most of the women have long hair and men have short hair.
9. Most scientists are men.
10. Women cannot drive well.
11. Cooking comes naturally to women

The students were asked to decide which statement denotes characteristics/behaviors based on sex and which are socially constructed.

Some of the explanations-

Students Response	Facilitator's explanation
Only mothers are best care takers because this is a God gifted quality.	Breast feeding is a biological process hence it is related to sex. However taking care of a child

Hence this is part of sex.	other than breast feeding her is a skill which both men and women can acquire. But socially it has been so constructed that only women can take care of children hence this is gender.
Both men and women can cook hence it is not related to sex.	Right, both can cook and it has nothing to do with sex.
Girls have small brains so they are not good in science, this is sex.	True that women have smaller brain than men but there are no scientific evidences that the size of their brain makes them less rational hence they are not good in science. Therefore this a gender not sex.

The next session was Gendered Behaviours and their Consequences –Participants were divided into groups of five. Each group gets to enact one of the following.

- How would a bride/bridegroom behave on their wedding day?
- How would a young woman/man walk through the busy market after dark?
- How would a woman/man laugh in a gathering?
- How would a woman/man show anger?
- How would a woman/man show pain?

After the enactment the participants were asked to reflect on the following questions-

- Do you find women and men behaving differently in these situations? Why?
- How and where are these behaviors learned?
- At what stages of our lives do we learn these behaviors?
- What impact do these norms have on the lives of men and women?

Some of the responses

Yes the behavior immediately help us differentiate between male and female.

We learned these behavior unconsciously.

We judge the goodness/ badness perfect/ imperfectness of male and female behavior based on how they behave during such situations.


Urmimala pointed out that it is through the process of socialization that we all learn our roles and expected behavior.

In the next activity - ,The Story of a Queen and a King the purpose was to examine the lives of men and women in a comparative way. To initiate a discussion on the possibility of reversal of gender roles and qualities.

The participants were asked to form a circle. They were asked to construct biographies of two imaginary people, first the queen, then the king. Participants were given balls and each one was asked to pass the ball to one member of the group and before passing the ball they were supposed to say something about the life of the queen, but by describing events (from birth to death) they associate with the king's life. (Example: "The queen enjoyed war and the sight of blood.").

Some of the responses-

- The king liked to play with dolls.
- Queen like horse riding.
- The queen was fearless.
- The queen choose to marry the king.
- The king was very shy.
- The king was a very good cook.
- The queen ruled her kingdom.
- The king looked after their children.
- The queen died fighting a battle.
- The king mourned the death of the queen and died in some years in sorrow.



Participants were asked the following questions-

- Did they find the exercise amusing? If so, why?
- What are the roles expected of men and women?
- Which of these are natural and which of these are learned? Why do we find it funny when these roles are reversed?
- Do the roles have to be so different? Why are they different?

Some responses

Yes it was amusing because do you see king playing with dolls?

Men and women are have certain expected role therefore it was difficult for us to reverse their roles.

Shyness is natural while cooking is learnt. Bravery is natural while horse riding is learnt.

We find it funny because all men do not take care of children or all women do not fight battles. They do not do because they are not expected to do so.


Urmimala concluded the session by stating that these response shows that both men and women have and can have both the traits of male and female however we are under pressure to act as per the existing structure of the society.

In the last session of the day boys and girls were asked to stand in a circle boys in inner circle and girls in outer circle than they were asked to face each other and mention about some good

qualities and some bad qualities of the opposite sex. Following were some of the good and bad qualities of boys and girls which emerged during the exercise.

Boys Good Qualities	Boys Bad Qualities	Girls Good Qualities	Girls Bad Qualities
Cooperative	Not trust worthy	High level of tolerance	No reasoning power
Good at outdoor activities	Make comments on girls	Good at household work	Selfish
Provide safety	Get angry	Always smilely	Indulge in gossiping
Helpful	Do not cooperate in domestic work	Adjusting	Cry
United	Use abusive language	Cultured	Jealous
	Over react	Sweet spoken	Money minded
	Discourage girls		

The participants were then asked to point out whether the above qualities pointed out by them indicate gender or sex attributes. All agreed that the all most all the behavior are attributes of gender. And all the participants agreed to give attention to their qualities and convert them into good ones.



State level Mega Event "CULTURAL EVENT AND GENDER EQUALITY MELA" in collaboration with Oxfam India and 181 Women Help Line

One Day Lecture on Neuro Linguistic Programming (NLP) on 25th September 2017

Spokesperson – Mr. Ranjit Gaikwad Patil

Mr. Ranjit Gaikwad Patil is a life coach. He is a wallingencyclopedia of NLP (Neuro Linguistic Programme) techniques and terminology and has been training with clarity and precision.

The discussion went on following topics.

- Application of NLP to increase productivity of an individual
- The 3 basic need of an individual to lead a happy life is to sterile balance in health, health & relationship.
- How to become happy by getting clarity on self and the propose of one's life.


The session was a good learning experience, it gives us insight and made us think about the various aspects of life with a different angel.

At the end of session, quires of students were answered by him (Mr. Ranjit). All in all, the exposure given was appreciated by all.



One Day Lecture on Neuro Linguistic Programming (NLP)

ews



**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 25/09/2018

Notice

All the students of MBA 1st Semester are required to attend the three days' work shop on following topics as per below mentioned schedule:

S No:	Date	Time	Topic	Speaker
1	28/09/2018	10:30 AM- 12:00 Noon	Interview Skills	Mr. S Sexsena, VP, Cholamandalum
2	29/09/2018	10:30 AM- 12:00 Noon	Body Language	Dr. Gagandeep, Singh, Director, Udaan Coaching


DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)

5.31

2018

**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 10/11/2018

Notice

All the students of MBA 4th Semester are required to attend the three days' work shop on following topics as per below mentioned schedule:

S No:	Date	Time	Topic	Speaker
1	14/11/2018	10:30 AM- 12:00 Noon	Listening Skills, Presentation Skills and Group Discussion	Mr. Lav Kush Kumar, AVP Karvy India Ltd.
2	15/11/2018	10:30 AM- 12:00 Noon	Career Prospects in Insurance Industry	Mr. Abhishek Pandey, IFFFCO TOKIYO General Insurance Company
3	16/11/2018	10:30 AM- 12:00 Noon	Career Prospects in Retail Market Segments	Mr. Mithilesh Kumar, AE, Hindustan Unilever Ltd.


DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)

S.103 2018

2017-2018

**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 21/08/2018

Notice

All the students of MBA 1st Semester are required to attend the three days' work shop on following topics as per below mentioned schedule:

S No:	Date	Time	Topic	Speaker
1	23/08/2018	10:30 AM- 12:00 Noon	Interview Skills	Dr. Gagandeep, Singh, Director, Udaan Coaching
2	24/08/2018	10:30 AM- 12:00 Noon	Group Discussion Skills	Dr. Gagandeep, Singh, Director, Udaan Coaching
3	25/08/2018	10:30 AM- 12:00 Noon	Psychological Analysis	Dr. Gagandeep, Singh, Director, Udaan Coaching


DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)

5.1.3



ऑक्सफैम इंडिया
OXFAM
India

2018-2019

Dr. Sanjay Tiwari
Professor and Head
Renewable Energy Tech. & Mgmt. Centre
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

Dear Sir,

Sub: Approval for student exposure cum training visit to Mainpur, Gariaband district

Greetings from Oxfam India!

We, at Oxfam India are implementing a project titled 'Access to Energy to improve forest based livelihoods' in 5 villages of Mainpur block, Gariaband district. One of the project activities is to train the newly constituted village energy committee members on renewable energy. We think this is a good opportunity for students studying renewable energy to understand and get exposed to rural energy dynamics so that they can link their theoretical learning with practical applications. We hope that the students will get to understand the energy needs of the forest fringe tribal communities and return to their study with a fresh outlook which is more solution driven.

The following students have been selected for the exposure cum training visit:

Sl No	Name	Semester (B.Voc RETM)
1	Sheetal Sharwan	3 rd
2	Kesher Verma	3 rd
3	Ajay Sahu	3 rd
4	Kusum Sonkar	3 rd
5	Keshwariya Mishra	3 rd
6	Adarsh Yadav	5 th
7	Yash Parhad	5 th
8	Anjali Tamrakar	5 th
9	Ahteshan Qureshi	5 th
10	Pravin Chandrakar	5 th

They are expected to be present at Mainpur on 6th and 7th December 2018 (5 at a time). The travelling and fooding expenses will be borne by our partner NGO Khoj Evam Janjagriti Samiti based in Mainpur. Kindly grant your permission for this exposure visit.

Thanking you,

Yours sincerely,
Sandip Chowdhury
Project Officer-Access to Energy
Oxfam India

One day lecture on "Communication Skill"

8th February 2019



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. K. Pal'.

**Director CWS,
Pt. RSU Raipur**

RETM Sl. 3
Elahe

2018



EVENT REGISTER OF INSTITUTE OF RETM

YOUTH EMPOWERMENT AND CAPACITY BUILDING PROGRAMME ON "EMPLOYABILITY SKILLS" BY MS. SHEETAL DAVE, LEAD, CSR ENGAGEMENTS, SUBHASH CHANDRA FOUNDATION



Subhash Chandra Foundation
in association with
S.O.S. in Electronics & Photonics,
&
Institute of Renewable Energy Tech. & Mgmt,
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
Cordially invites you for
Youth Empowerment and Capacity Building
Programme on
"Employability Skills"

Speaker: Ms. Sheetal Dave
Lead, CSR engagements,
Subhash Chandra Foundation

Date: Thursday, 14th February 2019 at 02:00 PM
Venue: Sir Jagadish Chandra Bose Hall
S.O.S. in Life Sciences, Pt. R.S.U. Raipur

Hon'ble Vice-Chancellor
Prof. K.L.Verma
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
will preside over the function

Prityanka Dhanraj
Lead - Livelihood Partnerships
Subhash Chandra Foundation

Prof. Suresh Tiwari
Head (Electronics)
Coordinator (B. Voc. RETM)

Dr. G.K. Pandey
Registrar
Pt. R.S. University, Raipur





Invitation

Subhash Chandra Foundation
in association with

S.O.S. in Electronics & Photonics,
&

Institute of Renewable Energy Tech. & Mgmt.,
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

Cordially invites you for
Youth Empowerment and Capacity Building
Programme on
"Employability Skills"

Speaker : Ms. Sheetal Dave
Lead, CSR engagements,
Subhash Chandra Foundation

Date: Thursday, 14th February 2019 at 02:00 PM
Venue: Sir Jagadish Chandra Bose Hall
S.O.S. in Life Sciences, Pt. R.S.U. Raipur

Hon'ble Vice-Chancellor
Prof. K.L.Verma
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
will preside over the function

Priyanka Dhingra
Lead - Livelihood Partnerships
Subhash Chandra Foundation

Prof. Sanjay Tiwari
Head (Electronics)
Coordinator (B.Voc. RETM)

Dr. G.K.Pandey
Registrar
Pt. R.S.University, Raipur

अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन केन्द्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर


प्रेस - विज्ञप्ति

दिनांक : 14.02.2019

युवा सशक्तिकरण एवं कौशल विकास पर व्याख्यान

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के जगदीश चन्द्र बोस, जैविकी अध्ययन शाला में आज दिनांक 14.02.2019 को सुभाष चन्द्र फाउंडेशन, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटॉनिक्स अध्ययन शाला तथा अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में व्याख्यान आयोजित किया गया। जिसके प्रमुख वक्ता मिस शीतल दवे, लीड, सी.एस.आर. एंगेजमेंट सुभाष चन्द्र फाउंडेशन थी। इसके मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के. एल. वर्मा रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं का पथ प्रदर्शन करना रहा, क्योंकि युवा ही सशक्त एवं सुदृढ़ देश का आधार होता है। कार्यक्रम के वक्ता के अनुसार सुभाष चन्द्र फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य सशक्तिकरण, शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसके लिये भारत सरकार ने संविधान में शिक्षा के अधिकार को समायोजित कर साक्षरता सहित पालकों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा मिल सके, ऐसा प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। हमारे देश में लगभग 65 प्रतिशत से भी अधिक युवा है। युवाओं में ज्यादा जोश व एनर्जी होती है, जिससे वे अधिक लगन से कार्य करते हैं। युवाओं की सोच एक नयी विकास वाली होती है, जिससे देश का विकास होना तय है, जो देश को अर्थसशक्त बनाते हैं तथा ऐसे युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले, तो भारत से ताकतवर शायद ही कोई देश होगा। मिस दवे ने छात्रों को अपने बॉयोडाटा को बेहतर बनाने के गुर सिखाये। उन्होंने कहा कि अपने बॉयोडाटा में जानकारी कुछ तरह से प्रदर्शित करें, जिससे व्यक्ति कुछ ही समय में आपके बारे में जान सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. वर्मा ने कहा हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि बच्चे मजबूत कैरियर बनाये, बेहतर कौशल विकास हो तथा समय एवं चीजों के अनुरूप अपने आप को ढाल सके। भारत युवाओं का देश है, यहां के लोग दुनियां भर में मशहूर हैं किन्तु हमारे यहां बेरोजगारी है। उन्होंने युवाओं से कहा कि न सिर्फ वो रोजगार देखें बल्कि रोजगार उत्पन्न करें। स्व-रोजगार से सभी का हित होगा।


समन्वयक



Subhash Chandra Foundation
 in association with
S.O.S. in Electronics & Photonics
 &
Institute of Renewable Energy Technology and Management
Govind Ballabh Pant University, Raipur
 Cordially invites you for
Seminar on Employment and Capacity Building
on Employability Skills
 Date: 14th February 2019
 Time: 02:00 PM Onwards
 Venue: Sir Jagadish Chandra Bose Hall,
 S.O.S. in Life Sciences, Pt.R.S.U.

Prof. Sanjay Tiwari
 Convener, R.S.U. IETM

Prof. K.L. Verma
 Hon'ble Vice-Chancellor



Subhash Chandra Foundation
In association with


S.O.S. in Electronics & Photonics,
&

Institute of Renewable Energy Technology and Management
Raishankar Shukla University, Raipur

Cordially invites you for
Workshop on Government and Capacity Building
and Enhancement of Employability Skills

Date : 14th February 2019
Time : 02:00 PM Onwards

Venue : Sir Jagadish Chandra Bose Hall,
S.O.S. in life Sciences, PLR.S.U.






**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 12/02/2019

Notice

All the students of MBA 4th and 2nd Semester are required to attend the work shop on certification courses in Indian Stock Exchange conducted by Dr. H M Jha, Bidhaythi, SSGIEM, Shegaon on 15th and 16th Febrauary in the seminar Hall of Institute of Management at 10: 30 AM. Attendance of all the students is compulsory. Normal classes will resume after the session.


DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Sukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)

Management

S. 1.3

**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 20/03/2019

Notice

All the students of MBA 4th Semester are required to attend the work shop on Preperation of NET examination conducted by Dr. G K Deshmukh on 22nd and 23rd March in the seminar Hall of Institute of Management at 10: 30 AM. Attendance of all the students is compulsory. Normal classes will resume after the session.


DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)

S.I.B 2019-2020 Life SO S.I.B

School of Studies in Life Science

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) - 492010

213 Lifescience/2019

Raipur, dated: 21.11.19

NOTICE

Students of M.Sc. IIIrd semester (Bioscience, Microbiology and Biochemistry) and Research Scholars are advised to attend an Orientation Program under National University Student's Skill Development Programme organized in association with TATA Social Science Institute, Mumbai.

Date	22.11.2019
Time	1.00 P.M.
Venue	Sir J.C. Bose Hall, School of Studies in Life Science, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

ATTEND AND BE TRANSFORMED

(S) *Shukla*
21/11

SoS in Life Sc

CWS

**Health Awareness Programme on "Poly Cystic Ovarian Syndrome" in collaboration with AMIIS on
13th February 2020**

A one day Health Awareness Programme on " Poly Cystic Ovarian Syndrome" was organized by Center for Woman Studies, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, on 13th February, 2020 for creating awareness for PCOS which is a burning issue among the young girls. Dr. Gaivee Vinam Meshram, Junior Medical Officer (Department of Obstetrics & Gynaecology), AIIMS, Raipur was the invited speaker of the awareness programme. Prof. Priyamvada Srivastava, Associate Director, CWS, Pt. RSU introduced the speaker. Dr. Gaivee explained in details about the symptoms and treatment of PCOS. This condition is seen in females of age group 18-40 years. Early detection of the condition is advisable for the treatment to reduce the further complications. Generally symptoms like having a disturbed menstruation cycle, excessive hair growth in facial area, chest, back and buttocks is seen, difficulty in getting pregnancy due to poor ovulation, thinning of hair of head, excessive weight gain and excessive acne etc. are observed in this condition. She further explained the modes of treatment of PCOS and encouraged for counseling and treatment for the same.

A week long activities to celebrate International Women's Day (1st to 8th March, 2020) EachforEqual

To celebrate International Women's Day several activities were organized between 1 to 8 March, 2020.


Activities	Date	Stakeholder
Walkathon for Teachers, Employees & Students	4th March, 2020	Teachers, Employees & Students
Health Camp by University Health Centre, Pt. RSU, Raipur	4 th March, 2020 and onwards	Women Employees & students (girls)
Self Defense Techniques class for girls	5 th March, 2020	Students (Girls)
Lecture on Women's Health	6 th March 2020	Women (Faculty, Employees & Students)
Celebration of International Women's Day. (Feminist Short Film,)	8 th March, 2020	All

To celebrate International Women's Day several activities were organized between 1st to 8th march , 2020 which included essay writing competition, training of self-defense techniques for girls, lecture on women's health, Walkathon for teachers, employees and students and short feminist film festival . These activities were organized by Centre for Women's Studies, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

Training for self-defense was given by Prof. Rajeev Choudhary, School of Studies in Physical Education, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur. He trained the female students about the various skills of throwing techniques, hand techniques, leg techniques, holding techniques and gripping techniques which are helpful for self-defense. He also taught some useful moves of Judo. On 4th march a marathon "Walkathon" was organized. It started from Administrative block and ended in Physical Education department. Honourable Registrar Dr. Girish Kant Pandey, Prof. Rajeev Choudhary, Prof. Reeta Venugopal, Prof. Privamvada Srivastava headed the walkathon.

Professors of all the departments, employees and students participated in this marathon with great enthusiasm. After finishing the marathon the participants played games on gender sensitization and through these games messages on gender issues were shared. An essay writing competition was organized. Students of university participated in the event






Self Defense Techniques class for girls

**Celebration of International Women's Day.
(Feminist Short Film)**

This was followed by a programme on 8th March , 2020 a programme International Womens day on was organized with joint coloboration of CWS, Pt. RSU, Oxfam india and Chhattisgarh Mahila Aayog. Theme of the programme was "Towards Equality"

Inorder to celebrate International Womens day on 8th March , 2020 a programme was organized with joint coloboration of CWS, Pt. RSU, Oxfam india and Chhattisgarh Mahila Aayog. Theme of the programme was "Towards Equality". The programme was chaired by Prof. Kesari Lal Verma, Vice Chancellor, Pt. Ravishanmkar Shukla University. The pannelist were Mr. Abhay Dewangan, Secretary, Chhattisgarh Mahila Aayog, Mr. Anand Shukla, Regional Manager, Oxfam India, Prof. Reeta Venugopal, Director, CWS and Prof. Aditi Poddar, Associate director, CWS. The programme was conducted by Prof. Aditi Poddar. Prof. Reeta Venugopal gave the welcome address



[Handwritten signature]

**Director CWS,
Pt. RSU Raipur**



ऑक्सफैम इंडिया
OXFAM
India

5.1.3



29-3-2020

Centre for Women's Studies
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

In
Collaboration with
Oxfam India & Chhattisgarh State Commission for Women

Certificate

This certificate is presented to Miss Jagnati Jagat
on the occasion of International Women's Day 8th March, 2020 in recognition to her achievement in the
field of Academic

We wish her a bright future.

Mr. Anand Shukla
Regional Manager, Oxfam India, Raipur

Dr. Reeta Venugopal
Director, CWS, Pt. RSU, Raipur


5.3.1 2019

**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 01/05/2020

Notice

All the students of MBA 2nd Semester are required to attend the workshop on Resume preparation for online summer training conducted by Dr. Ashsish Biswas, AVP, Naukri.com on 4th and 5th May 2020. The link of Google meet will be shared on your registered mobile number and email id. Attendance of all the students is compulsory. The session will be followed by Selection Process for Summer Training.


DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)

5063

2020-2021


**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 17/12/2020

Notice

All the students of MBA 4th and 2nd Semester are required to attend the workshop on following topics:

S No:	Date	Time	Topic	Speaker
1	21/12/2020	10:30 AM- 12:00 Noon	Group Discussion and Interview Skills and Emotional Intelligence	Ms. Smita Tirkey, AVP, Price water house coopers Inc. (PWC), Hyderabad
2	22/12/2020	10:30 AM- 12:00 Noon	Personality Development, Psychological assessment based on WAT, PAT	Dr. Susmiti Sahu, Earnest and Young, New Delhi



DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)

**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 11/01/2021

Notice

All the students of MBA 4th Semester are required to attend the Training Session on Interview Skills and Resume Development conducted by Dr. R P Das Pro Vice Chancellor IGNOU, New Delhi on 14th and 15th January 2021 at 12:00 noon. The link of Google meet will be shared on your registered mobile number and email id. Attendance of all the students is compulsory. Normal classes will resume after the session.


DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)

**Health Awareness Programme on " Poly Cystic Ovarian Syndrome" in
collaboration with AMIIS 6th Feb. 2021**

A one-day national webinar under the umbrella of online health awareness program on the topic "Poly Cystic Ovarian Syndrome (PCOS)" was organized by the Centre for Women's Studies and School of Studies in Physical Education, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur on 06.02.2021 from 11.00 am to 1.00 pm. Dr. Priyamvada Shrivastava Co-Director, Centre for Women's Studies, welcomed the expert of the program Dr. Gaivee Vinam Meshram, Junior Medical Officer (Department of Obstetrics & Gynaecology) from Indian Institute of Medical Sciences, Raipur. In the webinar very important information was given by the expert regarding the symptoms of PCOS and also discussed about the measures to be taken for its prevention. In our country, this problem is being seen in about 70-80 percent of women and the disease is most common among the females in the age group of 18-40 years and the interesting fact is that most of women are not aware about it. Even today, there is a lack of information related to PCOS in our country, so it is very important to bring awareness about the diseases especially amongst the youth. If information about PCOS is received at the right time, then its treatment is possible. The easiest way for this is to do self-examination. Apart from this, women and girls between the age of 18 to 40 years should get tested by the doctor once every year. After the age of 20 to 35, the possibility of PCOS also increases. She also points out that if the women see any symptoms like absence of menstruation for two months, excessive hair fall, darkening of the skin, acne, obesity etc., then definitely she had to consult the doctor. Also, women should not be careless in whose family this problem is already exists, because it increases the risk of genetic cases. Dr. Gaivee Vinam Meshram described about the symptoms of PCOs and insisted to intake Balanced diet rich in both the micronutrients (Zinc, Copper, Iron, Magnesium) and macronutrients (Carbohydrates, Proteins, Fats and Vitamins) in food. She also talked about the importance of physical exercise, balanced diet, relaxation and mental stress management. At the same time, she also gave information that there is a counselling cell in AIIMS Raipur for PCOS where its treatment has been given to the patients. Dr. Reeta Venugopal, Director, Centre for Women's Studies shared her views about the importance of physical exercise so that the problem of PCOS can be corrected to some extent. At the end of the program questions were also raised by the participants. After the program many questions were asked by the which were answered by the team of experts. The program was conducted by research scholars

5.3.1. 2020

**Institute of Management
Pt. R S University, Raipur (CG)**

Date: 20/03/2021

Notice

All the students of MBA 4th and 2nd Semester are required to attend the personality Assessment session based on Imagery conducted by Dr. Gagandeep Singh Saluja, NLP Practitioner on 23rd March and 24th March 2021 at 11:00 AM. The link of Google meet along with practise sheet and study material will be shared on your registered mobile number and email id. Attendance of all the students is compulsory. The students are required to submit the practise sheet online in the official email ID of students for the assessment purpose

A. S. Meena
DIRECTOR
Institute of Management
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR-492010 (C. G.)